



CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED

Regd. Office : A-2, Opp. Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, JAIPUR - 302 005 Rajasthan (INDIA)
Phone: +91-141-222 2232 Email : conpetco@gmail.com
CIN No. : L23201RJ1986PLC003704 GSTN : 08AAACC7033L1ZM

Contol

Lubricants-Accelerating Performance

www.contol.in
www.conpetco.com

03.11.2020

To,
The Corporate Relations Department
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers , Dalal Street, Fort
Mumbai- 400001

SCRIPT CODE: 523232 SCRIPT ID: CONTPTR

Sub: Submission of Newspaper Clippings of Notice of Board Meeting

Dear Sir/Madam,

This is hereby to inform that, Board Meeting is scheduled to be held on Monday, 09th November, 2020, at 03:00 P.M. at Registered Office of the Company to consider inter alia, approval of the Unaudited Financial Results of the company for the quarter and half year ended on September 30th, 2020 along with Limited Review Report thereon and the same Notice for calling of Board Meeting is published in two newspaper i.e. in Jansatta (Hindi Newspaper) and Financial Express (English Newspaper) on 03rd November, 2020.


Please find below attached copy of Newspaper Clippings for record.

Thanking You

Yours Faithfully,

For CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED

MADAN LAL KHANDELWAL
(Managing Director)
DIN: 00414717



ISO 14001:2015 & 9001:2015 Certified



NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

CIN: L40101HR1975GOI032564
Regd. Office: NHPC Office Complex, Sector- 33, Faridabad-121003(Haryana)
E-mail: companysecretary@nhpc.nic.in, Telefax: 0129-2278018
Website: www.nhpcindia.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, November 11, 2020 at Faridabad to, *inter-alia*, consider and approve un-audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter/half year ended September 30, 2020.

Further, in terms of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in securities of the Company by designated persons which was closed from Thursday, October 1, 2020 shall remain closed until Friday, November 13, 2020 (both days inclusive).

The said notice may be accessed on the Company's website at www.nhpcindia.com and also on the website of stock exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

Members who have not registered their e-mail addresses, so far, are requested to register their e-mail addresses with their respective Depository Participant (DP) (in case of electronic holding) / Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or with Company (in case of physical holding), to receive all communication from the Company electronically.

For and on behalf of NHPC Limited
Sd/-
Place: Faridabad (Vijay Gupta)
Dated: 28.10.2020 Company Secretary

CONTINENTAL PETROLEUMS LIMITED
Regd. Office: A-2, Opp. Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005, (Rajasthan) Phone: 0141-2222232
CIN: L23201RJ1986PLC003704 • E-mail: conpetco@gmail.com, cs.conpetco@gmail.com • Website: www.contol.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015(Listing Regulations), Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 09th November, 2020 at 03.00 P.M at the registered office of the company *inter alia*, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the company for the Quarter and half year ended September 30th, 2020 along with the limited review report of the auditor.

Further, the trading window for dealing in securities of company is already closed for all designated persons of the company and their immediate relatives from 01st October, 2020 and the same shall remain closed till 48 hours after the announcement of the financial results for the Quarter and half year ended September 30th, 2020.

Place: Jaipur Sd/-
Date: 02/11/2020 Madan Lal Khandelwal (Managing Director)

Details of encumbrance

Date of E-Auction
Last Date of

TERMS & CONDITIONS

payable by interested bidder
accounts mentioned above
successful Bidder shall, im
price less the EMD amount
be forfeited. For details, the
M/s C1 India Pvt. Ltd., B
Help Line No. +91-124-
+91 7080804466 (M). For
Secured Creditor's website
STATUTORY 30/15 DAYS SA
This may also be treated
and guarantor/s of the said
Date :- 03.11.2020

BRILLIANT PORTFOLIOS LIMITED
Regd. Office: B-09, 412, IITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110088
Tel.: 011-45058963, Email: brilliantportfolios@gmail.com
CIN: L74899DL1994PLC057507

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 12th November, 2020 at 10:30 a.m. at its registered office, *inter-alia* to consider, approve and take on records the Unaudited financial results of the company for the Quarter/Half Year ended on 30th September, 2020.

The information contained in the Notice is available on the website of the Company- www.brilliantportfolios.com and on the website of BSE- www.bseindia.com

For Brilliant Portfolios Limited
Sd/-
Place: New Delhi Ashish
Date: 02/11/2020 Company Secretary & Compliance Officer



SHRI KALYAN HOLDINGS LIMITED
CIN: L67120RJ1993PLC061489
Regd office: B-19, Lal Bahadur Nagar, Malviya Nagar, Jaipur-302017 (Rajasthan)
Tel. No & Fax. : 0141-4034062, 0141-2554270
Website: www.shrikalyan.co.in, E-Mail: shrikalyan25@hotmail.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 09th day of November, 2020 at 04:00 P.M at the Registered office of the Company situated at B-19, Lal Bahadur Nagar, Malviya Nagar, Jaipur-302017 (Rajasthan), *inter alia*, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for the quarter and half year ended on September 30, 2020 along with the statement of Assets & Liabilities and Cash flow statement for the half year ended on September 30, 2020 and to take on record the Limited Review Report thereon.

The details are also available on the website of the Company i.e. "www.shrikalyan.co.in" and on the website of stock exchange i.e. "www.bseindia.com".

For Shri Kalyan Holdings Limited
Sd/-
Place: Jaipur Shikha Agarwal
Date: 02.11.2020 (Company Secretary & Compliance Officer) M. No.-: A37304

NOTICE FOR SALE OF ASSETS UNDER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016

GTHS RETAILS PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)
Liquidator's Address: 110/S2, Saraswati Block, D-6, Vasant Kunj, New Delhi - 110070
Email id : liquidator.gths@gmail.com | Mob.: 9810273888

Notice is hereby given to the public in general under the insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and Regulations there under, that the following Assets and properties of M/s. **GTHS RETAILS PRIVATE LIMITED** (In Liquidation) forming part of liquidation estate are for sale by the Liquidator. Assets will be sold by E-auction through the service provider M/s Augeo Asset Management Company (123done.in) via website <https://e-auction.123done.in>

S. No.	Brief Description of Assets for Sale	Reserve Price (IN INR)	EMD (IN INR)	Bid Incremental Value (IN INR)
1.	Hyundai Grand i10 Sportz 1.2 A/T, BS IV Petrol Engine, Colour - Wine Red; Kms Run-35,606; Year 2014 at Vasant Kunj, New Delhi	2,75,000	27,500	2,500
2.	Office Equipment and Furniture & Fittings including Computer, Printer, Server System, Windows Operating System, UPS, Water Cooler, Split Ac, battery rack, computer table, wooden counters, dressing lights etc., at NOIDA (UP)	61800	6000	1000
3.	Inventory (readymade women garments) at NOIDA (UP)	14100	1000	100

Date of Inspection: 5th November 2020 to 9th November, 2020 (from 12.00 Noon to 4.00 P.M) with prior intimation to the liquidator.
EOI Submission last date: 10.11.2020 till 6 PM.
Time & Date of E-Auction: 11.11.2020 3.00 PM to 5.30 PM (with unlimited extension of 5 minutes)
Contact Person For Inspection: Mr. Shekhar Singh Mobile No. 9711522275 (with prior intimation to liquidator at the aforementioned e-mail id)
Brief Terms & Conditions of the sale is as under:

- E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER IS BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities.
- Bids documents shall be submitted to the Liquidator either through email at the aforementioned email id or by submitting the hard copy at the liquidator's address mentioned above. in the format prescribed within the timelines stated above. The bid form along with detailed terms & conditions of complete E-auction process can be downloaded from the website of M/s Augeo Asset Management Company (123done.in) viz., <https://e-auction.123done.in>.

Interested bidders may contact the Liquidator or Mr. Shekhar Singh (Mob No.971522275) for further details in order to submit the bid.
Sd/-
Date: 02/11/2020 **RAMIT RASTOGI, Liquidator**
Place: New Delhi Regn. No: IBB/I/PA-002 /IP-N00297/2017-18/11032

SCHEDULE-II FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF M/S PICO EVENT MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED

Sr.	Name of Corporate Debtor	M/s Pico Event Marketing (India) Private Limited
1.	Name of Corporate Debtor	M/s Pico Event Marketing (India) Private Limited
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	19th August 2009
3.	Authority under which Corporate Debtor is Incorporated/Registered	Registrar of Companies, (Delhi) under Companies Act, 1956/ 2013
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U74900DL2009FTC193329
5.	Address of the registered office & principal office (if any) of corporate debtor	Level 2 Elegance, Mathura Road, Jasola, South Delhi New Delhi - 110025 IN
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	19.02.2020
7.	Liquidation commencement date of Corporate Debtor	22.10.2020 (Order received by Liquidator on 02.11.2020)
8.	Name & Registration Number of Insolvency Professional acting as Liquidator	Gaurav Katlyar Regn. No: IBB/I/PA-001/IP-P00209/2017-18/10409
9.	Address and Email of the liquidator as registered with the Board	D-32, East of Kailash, New Delhi - 110065 Email : cagauravkatlyar@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	D-32, East of Kailash, New Delhi - 110065 Email : picoevent.cirp@gmail.com
11.	Last date for submission of Claims	21.11.2020

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal (New Delhi Bench) has ordered the commencement of liquidation of the **M/s Pico Event Marketing (India) Private Limited** on **22nd October 2020**.

The stakeholders of **M/s Pico Event Marketing (India) Private Limited** are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before **21st November 2020**, to the liquidator at the address mentioned against item 10.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Date: 02.11.2020 Name and Signature of the Liquidator: **Gaurav Katlyar**
Place: New Delhi Regn. No: IBB/I/PA-001/IP-P00209/2017-18/10409

Statement of Deviation / Variation in u (Listing Obligations and Disclosure R

Name of Listed Entity
Mode of Fund Raising
Date of Raising Funds
Amount Raised (in Crores)
Report filed for the Quarter ended
Monitoring Agency
Monitoring Agency Name, if applicab
Is there a Deviation / Variation in use
if yes, whether the same is pursuant
which was approved by the sharehol
If yes, Date of shareholder Approval
Explanation for the Deviation / Variat
Comments of the Audit Committee a
Comments of the auditors, if any

Objects for which funds have been rais

Sr.	Original Object
1	For the Agri Machinery Busi Company i.e. the business manufacturing, assembly, sa marketing, financing, servic and development of: (a) trac construction equipment (i.e. loaders and other items to b agreed between Promoters Corporation); (c) implement transmission for tractors, co equipment (i.e., backhoe loa other items to be mutually a between the Promoters and Corporation) and implement spare parts of the items refe (c) and (d), and for the man engines by the Company.

Deviation or variation could mean:
(a) Deviation in the objects or purposes for
(b) Deviation in the amount of funds actual
(c) Change in terms of a Contract referred to

Place: Faridabad
Date: November 2, 2020